

Plot No. 21 & 22, Sector-6, Faridabad-121 006 (Haryana) INDIA Tel.: 91-129-2240411, 2306700 2306783

1st September, 2023

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai 400051

NSE Symbol: SPLIL

Listing Department

BSE Limited

Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532651

Subject-

Newspaper Advertisements-Notice of 32nd Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility.

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the 'Business Standard (English and Hindi)', in terms of Ministry of Corporate Affairs Circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 inter alia, intimating that the 32nd Annual General Meeting of the company will be held on Thursday, 28th September, 2023 at 11:00 A.M. through VC/OAVM.

Kindly take the same on record.

Thanking You For, **SPL Industries Limited**

Vishal Srivastava

Ogstally signed by Wallad Siniasters
Dit cold. 1 Jud Signatura
Dit cold. 1 Jud Signatura
Dit cold. 1 Jud Signatura
Dit cold. 2 Jud Signatura
Dit col

Vishal Srivastava (Company Secretary &

Compliance Officer

Encl.: Copy of Newspaper Advertisement.

OO INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH 😘 🔾 MARYADIT

Chandatalawali, Manglia, Indore-453771, Ph.: 0731-2811162 E-Mail: agmpurisds@gmail.com/sanchimsids@gmail.com

E-TENDER NOTICE

Online E-Tenders are invited through www.mptenders. gov.in for Supply of Sanchi Paneer pouches, Mawa, Curd, Chakka, Butter milk and Fluid milk two layer poly bags and Barrier Trays (250gm, 500gm and 1500gm), High Barrier Lid Film, Cookies Tray (300gm and 150gm), Cookies Tray Sealing Film Roll, Packing Tray & Cookies Packing Film, the last date for submission of the Tender is on 20.09.2023. The detailed tender terms and conditions can be seen only at our Web: www.sanchidairy.com. Any amendment made in this tender can be seen only on above referred website and not be published elsewhere. CEO, ISDS has full right to cancel the Tender at any stage without assigning any reason thereof. M.P. Madhyam/111715/2023 CHIEF EXECUTIVE OFFICER



s: 0091-161-2511001-5 (5 Lines)

INFORMATION REGARDING 49TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF G.S. AUTO INTERNATIONAL LIMITED ("COMPANY) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING('VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS('OAVM')

Members of the Company shall be held on Saturday, the 30th Day of September, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at the venue in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ('MCA') circulars dated December 28, 2022, May 05, 2022, May 05, 2020, April 17, 2020, April 08, 2020 and SEBI Circular dated January 05, 2023, May 13, 2022, and May 12, 2020, and other applicable circulars, to transact the businesses

AGM and Annual Report for the financial year 2022-2023 will be sent to all the shareholders, whose email address are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants and whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on Saturday, the 02nd day of September, 2023. The Notice of 49th AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.gsgroupindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

3. The members holding shares in dematerialized mode who have not registered/updated their email addresses and mobile numbers with the Company are requested to register/update their email addresses and mobile numbers with relevant depositories with their depository participants. The members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses and mobile numbers with the Company, are requested to register/update the same with the Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153/A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, New Delhi 110020, Email: info@skylinerta.com, Tel.: 011-26812682, 40450193 to 97,

the AGM through remote e-voting on the businesses as set out in the Notice of 49th AGM. The manner of casting the vote through remote e-voting by the shareholders holding shareholders in dematerialized mode, physical mode, and for the members who have not registered their email addresses, will be provided in the notice of 49th

For G S Auto International Limited

Place: Ludhlana Date: 30/08/2023

Branch: Station Road Jaipu **NOTICE FOR AUCTION CANCELLATION** and public in general are hereby informed that the E-Auction for the Mortgage Property in Loan A/c Mr. Satish Chand S/o Roop Singh is proposed on 12.09.2023, and for which E-Auction Notice was published on 04/08/2023 in Dainik Navjyot

and Business Standard. The said E-Auction is Cancellation due to some unavoidab Authorised Officer, Bank of Baroda

Circle SASTRA Centre, East Delhi, Mayur Vihar Phase-II, Pocket-E, Delhi-110091

-auction process to be held on 01.09.2023. Re-**Authorised Officer**

Punjab National Bank

The General Public is hereby informed that in auction Notice i.e. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES published or 27.07.2023 in English Newspaper- "BUSINESS "ANDARD" (Page No.12) & in Hindi Newspaper "BUSINESS STANDARD" (Page No.15) at Sr. No.14 (in Loan A/C M/S TECHVISION TESTING LAB PVT LTD) are not available for sale now. This property have been withdrawn by the bank from Branch: Makrana

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 15.04.2023 calling upon the borrowers Mr. Khema Ram S/o Mr. Nathu Ram (hereinafter called as Borrower & Mortgager) and Mr. Moti Lal Sharma 5/o Mr. Bhanwar Lal Sharma (hereinafter called as guarantor) to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 9,74,633.89 (Rupees Nine Lakhs Seventy Four Thousand Six Hundred Thirty Three and Eighty Nine Paisa Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

to be a superior of the control of the public in the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said December 10 of the public in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Talle on this 23rd day of August of the Year 2023.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 9,74,633.89 (Rupees Nine Lakins Seventy Four Thousand Six Hundred Thirty Three and

HS. 9,79,000.09 (nupress trume Lands Southern, 1997).

Eighty Nine Paisa Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time

The borrower's attention is invited to the provisions of Geodesia (a), available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION DETITIES IMMOVABILE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Residential property in the name of Mr. Khema Ram S/o Mr. Nathu Ram admeasuring 484.00 Sq. Yds situated at Khasra No - 46, 46/2, 46/3, Ram Negar Colony, Chawandiya Roed, Makrane, Distt. Negar 341001.

Bounded: On the North: Laxman Ram, On the South: Aam Rasta, On the East: Aam Rasta, On the East: Aam Rasta, On the South: Aam Rasta, On Date: 23.08.2023 Place : Makrana

Authorised Officer, Canara Bank

Branch: Makrana (2141)

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) act with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 24.01.2023 calling upon the borrowers Srl. Tapan Vishwas S/o Pravas Vishwas (Owner and hereinafter called as Borrower & Mortgager) to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.4,89,792.35 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and Thirty Six palsa only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and The Canara Bank in the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and The Canara Bank in the Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and The Canara Bank in the Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and The Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two and Canara Bank for an amount of Rs.4.95,792.36 (Rupees Four Lakhs Eighty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Two

Thirty Six palse only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time vailable to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property consisting of Residential Property at Plot No.822 (Patta No.1208), Petrol Pump Ke Pichhe, Deshwallo KI Dhani, Makrana, Nagaur, Rajasthan (341505) admeasuring 800.01 Sq.ft, Boundaries are as under: North:- Plot of Munni Ram, South:- Aam Rasta, East-Plot of Nabi & Chand, West:- Plot of Amin

Place : Makrana



G.S. AUTO INTERNATIONAL LTD.

1. NOTICE is hereby given that the 49th Annual General Meeting ('AGM') of the as set out in the Notice of 49th AGM.

2. In compliance to the above circulars, the electronic copies of the Notice of the 49th

Website: www.skylinerta.com.

4. The members will have the opportunity to cast their votes remotely and also during

(Mani Saggi) Company Secretary & Compliance Office

SPL Industries Limited

CIN: L74899DL1991PLC062744

Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi- 110019 | Phone: 0129-4282375

nformation regarding 32[™] Annual General Meeting ("AGM") to be helc through video Conference(VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

The 32nd Annual General Meeting ("AGM") of SPL Industries Limited 'the company") will be held on Thursday, 28th September, 2023 at 11:00 A.M. through video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to applicable provisions of the Companies Act. 2013 read with Genera Circular No. 14/ 2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and Genera Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8th. 2021. General Circular No. 2/2022 dated Mav 5th. 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28th, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13th, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5th, 2023 respectively, to ransact the businesses as set out in Notice convening the 32nd AGM.

Electronic copy of the Notice convening the 32nd AGM, containing among others procedure & instructions for e-voting and the Annual Report for FY 2022-23 will be sent, in due course, to those members whose email id is registered with th

company/Depository Participant Members who have not registered their email address, are requested to register

a. In respect of shares held in demat form-with their depository participan

b. In respect of shares held in physical form - members are requested to register/update the same by submitting Form ISR-1 (which is also available at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx) to the RTA viz Kfin Technologies Ltd, Unit: SPL Industries Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Manda Hyderabad 500032, Telengana.

lembers holding shares in Demat form can also send email t einward.ris@kfintech.com to register their email address for the limited ourpose of receiving the Notice of 32rd AGM and the Annual Report for the

The company will provide the facility to members to exercise their voting rights by electronic means. The instruction for joining the 32nd AGM through VC/OAVM and the process of e-voting (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast heir vote through e-voting), will form part of the Notice of 32nd AGM.

Notice convening 32^{nd} AGM and the Annual Report for the FY 2022-23 will also be available on the website of the company at <u>www.spllimited.com</u> and of the stock exchanges viz. BSE and NSE at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> n due course.

For, SPL Industries Limited

Place: Faridabad Vishal Srivastava Date: 29.08.2023

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071 Regional Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgagin your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interes (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amount nentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Date: 23.08.2023

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Loan Account No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) M/s. Jai Ecectric Works & Machinery Store Represented by its Proprietor Mr. Jai Singh, S/o. Balmat Singh, 2) Mr. Jai Singh, S/o. Balmat Singh (Borrower), 3) Mr. Pardeep, S/o. Jai Singh (Guarantor), 4) Mr. Parveen, S/o. Jai Singh (Guarantor), 5) Mrs. Savitri, W/o. Jai Singh	Loan Account No. 45288640000537 and 3206020000729616 Loan Amount: Rs.68,91,446/-	Part-'B': Mortgaged Immovable Property - Schedule Property - Property Details: Property Measuring Area 40 Sq.yds i.e. 1 Marla 2 Sarsai being 40/100 Share out of 3 Marla Comprised in Khewat No.2430 Khatoni No.2590 Rect No.138 Killa No.4/11(0-3) Situated at Village Khewda Teh. Rai Dist. Sonipat Vide Sale Deed No.2673 Dated 22-09-2014. Owned by Mrs. Savitri, Wio. Jai Singh. Bounded as: East: House of Others, West: House of Others, North: Street, South: House of Others. Property Details: Property Measuring A Shop/ Plot 31 Sq.yds 0-1 Marla being 1/39 Share out of 19 Marla Comprised in Khewat No.54, Khata No.123 Mustil & Killa No.19/8/1/2/2(1-14) 8/2/2(0-5) Waka Rakba Village, Bahalgarh Teh. Rai Dist. Sonipat Haryana. Owned by Mr. Jai Singh, Sio. Balmat Singh. Bounded as: East: Shop of Others, West: Shop of Others, South: Factory of Others, North: Khera Road.	NPA: 27-07-2023 Demand	Rs.67,40,119/- (Rupees Sixty Seven Lakh Fourty Thousand One Hundred Nineteen Only) as on 21.08.2023
2	1) Mr. Om Prakash, S/o. Sh Prahlad (Applicant), 2) Mrs. Babita, W/o. Mr. Om Prakash (Co-Applicant)	& 32039410000162 Loan Amount: Rs.19,50,940/-	Part-'B': Mortgaged Immovable Property - Schedule Property: All that piece and parcel of the Immovable Property bearing House No.132 (MC No. 8/2549), Area Measuring 34.22 Sq.yards, Waka Mochi Mohhalla, situated in Nagar Nigam Tehsil & Jila Karnal. Owned by Mrs. Babita, Wio. Mr. Om Prakash. Bounded by: East: 18 Ft. 2 Inch Gali, West: 18 Ft. 2 Inch, House of Ramesh Kumar, North: 17 Ft. House No.RB-131, South: 17 Ft. House No.RB-133.	NPA: 01-08-2023 Demand Notice Date: 21.08.2023	Rs.20,25,750/- (Rupees Twenty Lakh Twenty Five Thousand Seven Hundred and Fifty Only) as on 21.08.2023

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action fo enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Date: 30.08.2023, Place: Delhi NCR







Regulators and Market players give new dimension to the financial system: V S Sundaresan, at ASSOCHAM conference

At the 5th National Conference on Investors Protection, Education and Awareness organised by ASSOCHAM, the role of market regulators in incubating technology and adopting measures for systematic improvements were deliberated upon for the investors problems to be eliminated. Nuances for uplifting India's financial system were discussed and talks encapsulated on SEBI's dynamic role as the regulator for investors, issuers and intermediaries.



"Through the collaborative effort of the regulators, intermediaries and issuina companies, savers can be educated to turn investors. Over a period of time, the investor numbers ascended owing to the procedures that are not only reliable and beneficial, but also sustainable. The increased participation of institutional investors has made the economy more resilient."

 V S Sundaresar Executive Director, Securities and Exchange Board of India (SEBI)



Release of ASSOCHAM - Resurgent India Knowledge Report



Lighting of Lamp by Chief Guest Mr. V S Sundaresan, Executive Director, Securities and Exchange Board of India (SEBI)



Mr. Hitender Mehta, Senior Member - Managing Committee, ASSOCHAM and Managing Partner, Centrum Legal welcoming Mr. V S Sundaresan, Executive Director, Securities and Exchange Board of India







Panel Discussion on Investing in Financial Markets - Opportunities & Challenges

Supporters



Speakers at Panel on Investing in Financial Markets - Opportunities & Challe



Distinguish Speakers at the Inaugural Session



Co-Sponsors





AnandRathi Private Wealth, uncomplicated





SBI MUTUAL FUND



Knowledge Partner















प्राची प्राप्त प्राप्त के प्राप्त कार्यालय : व फेयरवे , भूतल और प्रथम तल , सर्वे सं. 10/1 , 11/2 और 12/2 बी , ऑफ खेमलुर , कोरामंगला इनर रिंग रोड , ईजीएल बिजनेस पार्क के पास , चल्लाघट्टा , बेंगलोर — 56007 1 . प्रादेशिक शाखा कार्यालय : 16/12 (एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबिक आप नीचे उल्लेखित उघारकर्ता, सह—उघारकर्ता, गारंटर औं बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंघक रखकर ज**ना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप समी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को **गैर—निष्पादित परिसंपति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबिक **जना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** अधिनयम के तहत एक प्रत्याभूत ऋणदाता होने के नाते, और उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 2 के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **मांग सूचना** जारी कर कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचना को दिनांक से **60 दिनों** के मीतर मविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से

•	न सं कुळका. सूचना नहां पहुंच सका।				
क्र. सं.	उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	प्रवर्तित होने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की दिनांक और मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि रुपये में / तक
1.	(1) मैसर्स जय इलेक्ट्रीक वर्क्स एंड मशीनरी स्टोर अपने मालिक श्री जय सिंह, पुत्र बलवंत सिंह के माध्यम से प्रतिनिधित्व (2) श्री जय सिंह (उधारकर्ता), (3) श्री प्रदीप, पुत्र जय सिंह (गारंटर), (4) श्री प्रदीण, पुत्र जय सिंह (गारंटर), (5) श्रीमती सावित्री, पत्नी जय सिंह	ऋण खाता सं. 4528864000537 और 3206020000 729616 ऋण राशि : रूपये 68,91,446/—	भाग-''ब'' — बंघक अचल संपतिय: अनुसूची संपत्ति: संपत्ति विवरण: श्रीमती सावित्री, पत्नी जय सिंह द्वारा स्वामित्व संपत्ति मापक ४० वर्ग गज यानी १ मरला २ सरसई यानी ४०/१०० हिस्सा ३ मरला में से निहित खेवत सं. २०३०, खतौनी सं. २५००, रेक्ट सं. १३८, विक्ला सं. ४/११(०-३) स्थित ग्राम खेवदा तहसील राय, जिला सोनीपत द्वाराबिक्री विलेख सं. २८७३ दिनांक २२.०९.२०१४, सीमांकन प्रकार: पूर्व: अन्य का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान संपत्ति विवरण: श्री जय सिंह, पुत्र बलवंत सिंह द्वारा स्वामित्व संपत्ति मापक एक दुकान /प्लॉट ३१ वर्ग गज ०-१ मरला यानी १/३० हिस्सा १९ मरला में से निहित खेवत सं.५४, खाता सं. १२३, मुस्तिल और किल्ला सं. १९/८/१/२/२(1-14) ८/२/२(0-5) वाका रकबा ग्राम, बहालगढ़ तहसील राय, जिला सोनीपत हरियाणा, सीमांकन प्रकार: पूर्व: अन्य का दुकान, पश्चिम: अन्य का दुकान, उत्तर: अन्य का कारखाना, दक्किण:खेरा सड़क।	एनपीए की दिनांक 27.07.2023 मांग सूचना दिनांक 21.08.2023	रूपये 87,40,119/— (रूपये सत्तासी लाख चालीस हजार एक सौ उन्नीस मात्र) दिनांक : 21.08.2023 तक
2.	(1) श्री ओम प्रकाश, पुत्र प्रहलाव (आवेदक), (2) श्रीमती बबिता, पत्नी श्री ओम प्रकाश (सह—आवेदक)	ऋण खाता सं. 3203942000050 और 3203942000050 ऋण राशि : रुपये 19,50,940/—	भाग—''ब'' — बंघक अचल संपत्तिय: अनुसूची संपत्ति: संपत्ति विवरण: श्रीमती बिबता,पत्नी ओम प्रकाश द्वारा स्वामित्व अचल संपत्ति धारक मकान सं. 132 (एमसी सं. 8/2549), मापक क्षेत्र 34.22 वर्ग गज वाका मोची मोहल्ला स्थित नगर मिगम तहसील और जिला करनाल, सीमांकन प्रकार: पूर्व: 18 फुट 2 इंच गली, पश्चिम: 8 फुट 2 इंच , रमेश कुमार का मकान, उत्तर: 17 फुट मकान सं. आरबी—131, विकाण: 17 फुट मकान सं. आरबी—133	मांग सूचना दिनांक 21.08.2023	पचास मात्र) दिनांक : 21.08.2023 तक

इसलिए जैसा कि कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया है, उधारकर्ता /सह—उधारकर्ता /गारंटर और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के **60 दिनों** के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता /सह—उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम नंबर 6 में दिखाए गए कुल राशि का भुगतान करने का आहवान किया गया है क्योंकि उक्त राशि संबंधित ऋण खाते के संबंध में कॉलम नंबर 6 में वर्णित दिनांक के अनुसार देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कुल राशि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भुगतान की दिनांक तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो **जना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** को कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर प्रत्याभूत ब्याज को प्रवर्तित करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए विवश किया जुरानि विजय जिता है। जिन स्नाह स्वाह स्वाह किया जिता स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह के बिना किया जाता है जैसा कि कानून के तहत उक्त वितीयों के उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के विरुद्ध जना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड को उपलब्ध है, आपसे यह भी अनुरोधि किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त प्रतिभूति के निपटान या उससे निपटने या प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना प्रत्याभूत परिसंपत्ति के बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका/निषद्ध किया जाता है।

दिनांक: 30.08.2023, स्थान: दिल्ली एनसीआर

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, प्रति जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय : लेवल 3, वोखार्ट टॉचर्स, ईस्ट विंग, सी−2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramfinance.in पंजीकृत कार्यालय : श्री टावर्स, प्लॉट नं 14**ए**, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : 245-246, दूसरी मंजिल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर 302021

परिशिष्ट-IV-A[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय नीलामी सूचना

यह सुचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी युनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम टांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सुचना दी जाती है कि **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक कब्जा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारे एवं जमानतियों से श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 16.09.2023 **को** 11 **बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच** की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मुल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है

कर्जदारों ⁄ सहकर्जदारों ⁄ जमानतियों ⁄ बंधककर्ता ओ के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
ऋण संख्या JAPR1TF2106110001 और JAPR1TF2011050001 श्री दीपक कुमार अग्रवाल निवासी हरि नारायण अग्रवाल, हाउस नंबर-1000, बागरू वालो का रास्ता, चांदपोल, जयपुर 302001 मैसर्स मां सरस्वती एंटरग्राइजेज (प्रोपराइटर- दीपक कुमार अग्रवाल) हाउस नंबर-999, बागरू वालो का रास्ता, चांदपोल, जयपुर 302001 श्री हरि नारायण अग्रवाल पुत्र रामनिवास अग्रवाल, हाउस नंबर-1000, बागरू वालो का रास्ता, चांदपोल, जयपुर 302001 मैसर्स कैलाश चंद्र अग्रवाल (प्रोपराइटर- दीपक कुमार अग्रवाल) सी-162, कॉर्नर, मेन मंडी प्रागन टर्मिनल मार्केट, मुहाना, जयपुर - 302003 एनपीए तिथि : 03.01.2022 कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार 24 नवम्बर, 2022 - भौतिक कब्जा जात ऋणभार	मांग सूचना की तिथि 04.08.2022 रू. 12246008/-(रूपये एक करोड़ बाईस लाख छियालीस हजार आठ मात्र) ऋण खाता JAPR1TF21 06110001 का फोर क्लोजर राशि दिनांक 04-08-2022 के अनुसार तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रभार	वाणिज्यिक	रु. 85,46,000/- (रुपये पिचासी लाख छियालीस हजार मात्र) संविदा वृद्धि रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) रु. 8,54,600/- (रुपये आठ लाख चौवन हजार छः सौ मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर, 2023 समय 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.	ईएमडी नीचे वर्णित खाता विवरण में आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा जमा की जानी है : श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई बैंक खाता सं. : चालूखाता सं. 006010200067449 आईएफएससी कोड : UTIB0000006	सितम्बर, 2023 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.	श्री राजेश चौधरी मोबाइल 9460117810 रवीन्द्र सिंह 9829499234 देबज्योति 9874702021 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 08 सितम्बर, 2023 समय :11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिनों की वैधानिक सुचना

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को सुचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तारीख यानी 17/07/2023 से पहले उपरोक्त वर्णित राशि के साथ-साथ अद्यतन ब्याज और सहायद खर्चों का भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा प्राधिकत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सरक्षित रखता है। ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी नेक्सजेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://www.disposalhub.com पर आयोजित की जाएगी और निविदा जमा करने के स्थान / बोली प्रपत्र प्राप्त करने/ निविदा खुलना और नीलामी के लिए, कृपया वेबसाइट https://www.disposalhub.com पर जाएं और बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया श्रीराग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट https://www.shriramfinance.in/auction में प्रावधानित लिंक देखें।

र /- अधिकत पाधिकारी स्थान : जयपर तिथि : 30.08.2023 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एसपीएल इंडस्ट्रीज लिभिटेड

सीआईएन : एला74899डीएल1991पीएलसी062744 पंजी. कार्यालय : 202, द्वितीय तल, विक्रमादित्य टावर, अलकनंदा मार्किट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 | **फोन**: 0129-4282375 ई-मेल : cs@spllimited.com, वेबसाइट : www.spllimited.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साथनी (ओएवीएम) के आध्यम से आयोजन हेतु निर्धारित 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के संबंध में सूचना

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू . प्रावधानों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित ८ अप्रैल, २०२०, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, २०२०, जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021 जनरल सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 और जनरल सर्कुलर नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी /एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी/पीओडी-2/पी/ सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 क्रमानुसार के अनुसरण में 32वीं एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

32वीं एजीएम आयोजन की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें अन्य के साथ ई—वोटिंग हेतु प्रक्रिया एवं अनुदेश तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट समाविष्ट है, यथा समय, उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीकृत है।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे उसका पंजीकरण यथाशीघ्र करवाने का अनुरोध किया जाता है।

क. डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास; ख. भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में – सदस्यों से अनुरोध है कि उसका पंजीकरण प्रपत्र आईएसआर—1 (जोकि https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध है) आरटीए नामतः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट : एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, तेलंगाना को भेजकर करवा लें।

डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में सदस्य 32वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उददेश्य हेत् अपना ई-मेल पत einward.ris@kfintech.com को ई-मेल भेजकर भी पंजीकृत करवा सकते हैं। कम्पनी सदस्यों को उनके वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने के अधिकार का प्रयोग करने की सविधा प्रदान करेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 32वीं एजीएम से जडने तथा ई-वोटिंग (जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं अथवा जिनके द्वाा ई-मेल पता पंजीकृत

नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि सहित) हेत् अनुदेश 32वीं एजीएम की सचना का अंश होंगे। 32वीं एजीएम आयोजन की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.spllimited.com तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट्स www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर यथासमय उपलब्ध होंगी।

हस्ता. 🗸 स्थान : फरीदाबाद विशाल श्रीवास्तव तिथि : 29-08-2023 कम्पनी सचिव

वास्ते एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड



राजनंदिनी मेटल लिमिटेड CIN: L51109HR2010PLC040255

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 344, सेक्टर 3 फेज ॥, आईएमटी बावल-123501 हरियाणा (भारत) दूरमाषः 01284-264194; ईमेलः info@rajnandinimetal.com; वेबसाइटः www.rajnandinimetal.com

13वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र दिनांकित 3 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 05 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा गया है) तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राजनंदिनी मेटल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 13वीं (तेरहवीं) वार्षिक साधारण बैठक "एजीएम") वीडियो काँफ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजूअल साधनों ("ओएवीएम") के जरिए शुक्रवार 22 सितम्बर, 2022 को अपराहन 01,30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 29 अगस्त, 2023 को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 13वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 उन सभी सदस्यों को भेज दिया है. जिनके ई-मेल का पता कंपनी अथवा पंजीयक तथा हस्तांतरण एजेंट ('पंजीयक') तथा डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। एजीएम के नोटिस की मौतिक प्रतियां भेजने की . आवश्यकर्ता को एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, अन्य विषयों के साथ, जिसमें 13वीं एजीएम की सूचना तथा व्यख्यात्मक विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.rajnandinimetal.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर उपलब्ध है। उसकी प्रतिलिपि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

सदस्यगण आगे निम्नलिखित पर भी ध्यान दे सकते हैं:

- l) सदस्यों के वोटाधिकार अंतिम तारीख यानी शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात के अनुरूप होगा। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तारीख को सदस्यों/लाभभोगी स्वत्वाधिकारों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वे ही रिगोट ई-वोटिंग/ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो अंतिम तारीख को सदस्य नहीं है वे इस एजीएम की सूचना को सिर्फ जानकारी के उद्देश्य के रूप में समझे।
- एजीएम की सूचना में अन्य विषय के साथ रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की पद्धति तथा प्रारूप तथ एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देशावलियां शामिल हैं।
- 3) कंपनी की एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी। 4) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी तथा बहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को अपराहन 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तारीख एवं समय
- के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5) 13वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने की पद्धति का वर्णन एजीएम की सूचना में किया गया है।
-) ऐसे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम की सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होते हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाले हैं, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने के पात्र होंगे।
- ') रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के उपरांत भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8) ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल-आईडी का पंजीकरण नहीं करवाया है उनसे प्रासंगिक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण कराने का अनुरोध किया जाता है। ई-मेल पता के पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर/कोई प्रश्न रहने पर शेयरधारकगण बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. के पास bssdelhi@ bigshareonline.com पर लिख सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते राजनंदिनी मेटल लिमिटेर

दिनांकः **29 अगस्त, 202**3 प्रबंध निदेशव



रेल विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली — 110066 ईमेल: investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएन: L74999DL2003GOI118633,

20वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारको को सूचना

स्थानः बावल

. एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों के लेन–देन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को 11:30 बजे पूर्वा**. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी जिसे अलग से सर्कुलेट किया जा रहा है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रोलय ("एमसीए परिपत्र") और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अनुपालन में दिनांक 05 जनवरी, 2023 क्रमशः और अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी" (एल ओ डी आर) विनियम"), कंपनी की 20वीं एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित एजीएम की सूचना कम्पनी के केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग में www.rvnl.org, स्टॉक एक्सबेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com, सीडीएसएल (ई—वोटिंग / रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com तथा कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट www.alankit.com पर भी उपलब्ध है

3. ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने की रीति

(क) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप से शेयरों के मामले में कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205—208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 पर या मेल virenders@alankit.com द्वारा पंजीकृत करें।

(ख) शेयरघारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। (i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं तो कृपया ई—मेल virenders@alankit.com द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व—सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व—सत्यापित स्कैन प्रति) प्रदान करें ।

(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी—क्लाइंटआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी—क्लाइंटआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित . खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति) virenders@alankit.com पर प्रदान करें । यदि आप डीमैट विधि में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना में बताई गई लॉगिन विधि देखें । (ग) वैकटिपक रूप से शेयरधारक / सदस्य ये दस्तावेज www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराकर ई–वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध

भेज सकते हैं।

4. रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग करने की रीति

- **क)** सदस्यों को इलेक्टॉनिक बोटिंग सिस्टम ("ई—बोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य पर अपना मतदान करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। 🔞 डीमैटीरियलोइर्ज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनके द्वारा रिमोट ढंग से मतदान
- ('रिमोट ई—वोटिंग') की रीति एजीएम की सूचना में दी गयी है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी म) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम मे
- मतदान कर सकेंगे ।
- घ) ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल नहीं प्राप्त हआ अथवा जिनके ई-मेल कम्पनी / अलंकित एसाइनमेंट्स / डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करके लॉगिन विवरण सुजित कर सकते हैं।

लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश दर्ज कराने का तरीका :

(क) लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बँक खाते के विवरण को अपडेट किया है । लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट ु उन शेयरधारकों के पंजीकत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे ईसीएस मैंडेट फॉर्म भरने और ईसीएस सुविधा का लाम उठाने के लिए इसे सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को जमा करने का अनुरोध किया जाता है । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति ईसीएस मैंडेट फॉर्म को अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित" या आरटीए") को भेज सकते हैं । शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं बुना चाहते हैं, वे अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या अलंकित को ई—मेल कर सकते हैं ताकि वे लाभांश वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें ।

. सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट और विशेष रूप से ई–मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कराने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान या एजीएम के दौरान मतदान की रीति और लाभाश सम्बन्धी सूचना ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

स्थान : नर्ड दिल्ली

कते रेल विकास निगम लिमिटेड (कल्पना दुबे) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड रिटेल रिकवरी, डी-24, दुर्लभ निवास, पथ्वीराज रोड. सी-स्कीम, जयपर, राजस्थान 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक आयोजित होने वाली वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम,

तिथि: 29.08.2023

नसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(सें) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लि.) के पास निम्नलिखित अचल सम्पतिगएँप्रतिभूत आस्तियाँ बन्धककृत/प्रभारित हैं। जबकि वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) वे तहत अधिकत प्राधिकारियों ने नीचे प्रत्येक कर्जदार के सम्मख विवरणों के अनुसार कर्जदार, जमानतियाँ, व्यवक्कर्ताओं (इसके प्रश्वात कर्जदार कहा जायेगा) से बकायों की वसली हेत माँग सचना निर्गत की है। पनः संबंधित अधिकत प्राधिकारियों ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनयम्, 2002 में निर्ह शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित प्रतिभुत आस्तियों का भीतिक सांकेतिक केव्जा कर लिया है। जबकि कर्जदारों से माँग सूचना के अनुसार तथा वसूलियों, यदि कोई हो, को घटाकर बैंक द्वारा व्यय भावी व्याज, लागतों तथा प्रभारों सहित आईडीबीआई बैंक लि. के बकाय प्रतिभृति ऋणों की वसूली के लिए प्रतिभृत आस्तियों की विक्री सार्वजनिव -िनीलामी द्वारा की जायेगी। जनसामान्य को या तो व्यक्तिगत या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से संविदा के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/ (सह-कर्जदार)/ जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि तथा उसमें उल्लिखित बकाया गरिंग	प्रतिभूत आस्तियों का विवारण	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी तथा संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि		सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	वर्धित बोली	अधिकृत प्राधिकारी.∕नोइल अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क नं.
1	मैसर्स दीपक ट्रेडर्स	30 अगस्त, 2019 रु. 94,07,000/-	दुकान नं. 3 एवं 4 (छत रहित), स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा, राजस्थान	भौतिक	28 फर., 2020	22,64,000/-	2,26,000/-	18.09.2023 को 5.00 बाजे अप. तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड- IBKL0000348	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737] अधिकृत प्राधिकारी-डॉ. जे.पी. परीश [9911671815]
2			दुकान नं. 5 (छत रहित), स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा, राजस्थान	भौतिक	28 फर., 2020	15,52,000/-	1,55,000/-	18.09.2023 को 5.00 बजे अप. तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड – IBKL0000348	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737] अधिकृत प्राधिकारी-डॉ. जे.पी. परीश [9911671815]
3			स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा, पर दुकान	भौतिक	28 फर., 2020	18,08,000/-	1,81,000/-	18.09.2023 को 5.00 बजे अप. तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड – IBKL0000348	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737 अधिकृत ग्राधिकारी-डॉ. जे.पी. परीश [9911671815]
4	मैसर्स श्रुति सेल्स एजेंसी	30 अगस्त, 2019 रू. 92,92,000/-	दुकान नं. 6 (छत रहित), स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा, राजस्थान	भौतिक	28 फर., 2020	13,92,000/-	1,39,000/-	18.09.2023 को 5.00 बजे अप. तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड – IBKL0000348	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737 अधिकृत प्राधिकारी-डॉ. जे.पी. परीश [9911671815]
5			दुकान नं. 1 एवं 2 (छत रहित), स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा	भौतिक	28 फर., 2020	21,12,000/-	2,11,000/-	18.09.2023 को 5.00 बजे अप. तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड – IBKL0000348	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737] अधिकृत ग्राधिकारी-डॉ. जे.पी. परीश [9911671815]
6			स्वागत मार्केट, पुरानी धान मंडी, कोटा, पर दुकान	भौतिक	28 फर., 2020	18,56,000/-	1,85,000/-	18.09.2023 को 5.00 बजे अप, तक	खाता सं. 34837000010052 नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	संभावित कर्जदार अधिकारियों से संपर्क कर	10,000/-	नोडल अधिकारी-मनोज कुमार [9540283737] अधिकृत प्राधिकारी-डॉ. जेपी. परीश

ई-<mark>नीलामी बिक्री के सीक्षरत नियम एवं शर्ते</mark> : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्ते के अनुरूप की जायेगी। (1) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है आधार," "जो है वही है आधार" तथा "आश्रय रहित आधार" पर प्रतिभूत लेनदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लि. के लिए तथा उसकी ओर से की जायेगी। (2) यह बिक्री इस विज्ञापन तथा ''संविदा दस्तावेज'' में दिये गये नियमों तथा शर्तों के पूर्णतः अनुरूप की जायेगी। संविदा दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यकारी दिवसों पर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाइट अर्थात www.idbibank.in तथ https://www.bankeauctions.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। (3) बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctionwizard.com पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता अन्तरेस सिस्टम्स लिमिटेड, सम्पर्क सुश्री बी.एम. सुष्मिता/मरीना जैकब (ई-मेल sushmitha.b@antaressystems.com / marina.j@antaressystems.com) या सेल +91-8951944383 / 968619675 [Phone: +91-080-40482100 के माध्यम से होगी। (4) अधिकृत प्राधिकारी को यदि स्त्रीकार्य प्रतीत न हो तो उपर्युक्त किसी संविदा को स्त्रीकार करने या सभी संविदाओं को अस्त्रीकार करने या विना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को विलम्बित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। (5) सफल संविदाकार को जमा की गयी धरोहर राशि सिहत बिक्री मूल्य का 25% बिक्री की पुष्टि के समय जमा करना अपेक्षित है। बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या एओ हारा सहमति के अनसार विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी। निर्वारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल होने पर धरोहर राशि सहित जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। (6) 25% संविदा राशि तरन्त जमा करने अथवा निर्वारित अवधि के भीतर संविदा राशि का शेष 75% जमा करने में चक करने पर पहले से जमा की गयी राशि जन्त कर ली जायेगी और प्रतिभृति आस्तियों का पुनः विक्रय किया जायेगा। (?) पंजीकरण प्रभार, स्टैम शुल्क, कर आदि सहित समस्त विधिक देवताएँ/सहायक प्रभार/अन्य बकायों का वहन क्रेता हारा किया जायेगा। औरक विवरण, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.idbibank.in देखें तथाँ/अथवा ऊपर प्रत्येक सम्पति के प्रम्मख उल्लिखित नोडल अधिकारियों/अधिकत प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम ९(1) एवं ८(6) के तहत 15/30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा अपटुंडेट व्याज तथा अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि ई-नीलामी तिथि के पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाये, यदि कोई हों, की वसूली व्याज तथा लागतों सहित की जायेगी। ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि. तिथि : 30.08.2023

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार **कमल नारायण यादव उर्फ के एन यादव औ**र सीमा यादव को 27.05.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLGTN00415199 की राशि 👨 .71,17,982.46 🖊 (रुपए इकहत्तर लाख सत्रह हजार नौ सौ बयासी और छियालीस "पैसे मात्र) और 25.05.2023 वे अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट <mark>60</mark> दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.08.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.71,17,982.46 /- (रुपए इकहत्तर <mark>लाख सत्रह हजार नौ सौ बयासी और छियालीस पैसे मात्र) 25.05.2023</mark> के अनुसार और उस प ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण आवासीय प्लॉट नं. ई-45 के सभी भाग और खंड, मापित 301.57 स्के.यार्डस, ब्लॉक ई में, रहेज अरण्य सिटी पर, सेक्टर -11 और 14 पर स्थित, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा-122001

सही/-दिनांक:25.08.2023 प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान :गुरुग्राम